

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 27—अक्टूबर 3, 2014 (आश्विन 5, 1936)

No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27—OCTOBER 3, 2014 (ASVINA 5, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली—110003, दिनांक 3 सितम्बर 2014

सं. डीपीपर्स.1/2014/0086/3/22/2009—श्री अरुण बोधरा, भा.पु.सेवा (उड़ीसा : 1996), पुलिस उपमहानिरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली की सेवाएं केन्द्र में उनके स्वीकृत कार्यकाल पूरा होने के फलस्वरूप प्रत्यावर्तन पर दिनांक 23.08.2014 के अपराहन से उड़ीसा सरकार को वापस सौंपी जाती हैं।

दीपिका सूरी
उप निदेशक (कार्मिक)

दिनांक 5 सितम्बर 2014

सं. डीपीपर्स.1/2014/87/3/150/2011—श्री सलिल कपूर, सर्कल ऑर्गेनाइजर एसएसबी, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर पुलिस उपाधीक्षक के पद पर कार्यरत, की सेवाएं उनके समयपूर्व प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप दिनांक 12.08.2014 (अपराहन) से सशस्त्र सीमा बल को वापस सौंपी जाती हैं।

दीपिका सूरी
उप निदेशक (कार्मिक)

गृह मंत्रालय

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

हैदराबाद—500052, दिनांक 8 सितम्बर 2014

सं. 15011/14/2014—स्था.—संघ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक एफ. सं. 3/24(38)/2013—एडीटी—3 दिनांक 04 मार्च 2014 एवं 26 जून, 2014 में की गई संस्तुति के आधार पर डॉ. येलावर्धी निर्मला, रीडर इन एज्युकेशन (शिक्षा अध्ययनशाला), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में पे—बैंड—3 रुपए 15,600—39,100/— सहित ग्रेड—पे रुपए 7,600/— में शिक्षण पद्धति (टीचिंग मैथोडोलॉजी) रीडर के पद पर दिनांक 27 अगस्त, 2014 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष या अगला आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले लागू हो, प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों के आधार पर नियुक्त किया जाता है। अधिकारी को उक्त पद के लिए भारत सरकार द्वारा समय—समय पर दिए जाने वाले वेतन—भत्ते नियमानुसार प्राप्त करने का हक रहेगा।

अरुणा बहुगुणा
निदेशक

दिनांक 10 सितम्बर 2014

सं. 15011/12/2014—स्था.—संघ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक एफ. सं. 3/24(39)/2013—एडीटी—3 दिनांक 05 फरवरी 2014 में की गई संस्तुति तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इन्दौर के पत्र संख्या स्थापना 2014 दिनांक निल के आधार पर श्री जितेन्द्र वेद, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इन्दौर, मध्य प्रदेश को सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में पे—बैंड—2 रुपए 9,300—34,800/— सहित ग्रेड—पे रुपए 4,600/— में हिन्दी अनुदेशक, गुप—B, राजपत्रित, गैर मंत्रालयी पद पर दिनांक 30 जून, 2014 के पूर्वाह्न से दो वर्ष या अगला आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले लागू हो, प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों के आधार पर नियुक्त किया जाता है। अधिकारी को उक्त पद के लिए भारत सरकार द्वारा समय—समय पर दिए जाने वाले वेतन—भत्ते नियमानुसार प्राप्त करने का हक रहेगा।

अरुणा बहुगुणा
निदेशक

लोकनायक जय प्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान

दिल्ली—110085, दिनांक 5 अगस्त 2014

सं. 01/15/14—एलएनजेएन एनआईसीएफएस—राष्ट्रपति, श्रीमती रीना मित्रा, भा.पु.से.(एम.पी.—83) को 22 जुलाई 2014 (पूर्वाह्न) से 21 मई 2015 तक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति व पार्श्विक अन्तरण के आधार पर रु. 67,000—79,000/— के वेतनमान में निदेशक, लोकनायक जय प्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान (गृह मंत्रालय) के पद पर नियुक्त करते हैं।

दीपा पांडे
प्रशासनिक अधिकारी

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली—110003, दिनांक 5 सितम्बर 2014

सं. डी.एक. 9/2009—2013—कार्मिक.डी0ए0—आठ—गृह मंत्रालय के पत्र संख्या I—21022/1/2013—कार्मिक—दो दिनांक 04/04/2014 और उप सचिव गृह (आरक्षी) विभागा सरकार बिहार अधिसूचना संख्या 2/D—01—203/09(Part-II) G.R. 4974/Patna-15 दिनांक 18/06/2014 के तहत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों का अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक

(परिचालन) के पद पर बिहार के नक्सल प्रभावित जिलों में प्रतिनियुक्ति पर 03 वर्षों के लिए चयन हो जाने के फलस्वरूप अधिकारियों की सेवाएँ उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख से महानिदेशक बिहार पुलिस के निपटान (DISPOSAL) पर रहेंगी :-

क्रम सं०	ईरला	अधिकारी का नाम (सर्वश्री) एवं रैंक	बटा०/सैक्टर	दिनांक/ अपराहन	स्थान
01	5427	अरुण कुमार सिंह उप कमान्डेन्ट	218 बटालियन केरिपुबल	13/07/14(अप०)	बांका
02	5345	अनिल कुमार सिंह उप कमान्डेन्ट	एस डि जी केरिपुबल	27/08/14(अप०)	जहानाबाद
03	5652	रजनीश कुमार उप कमान्डेन्ट	स्मूह केन्द्र मुजाफरपुर	23/07/14(अप०)	लखीसराय
04	6694	संजीव कुमार सिंह उप कमान्डेन्ट	192 बटालियन केरिपुबल	20/07/14 (अप०)	सीतामढ़ी अतिरिक्त प्रभार शिवहर
05	5517	शैलेश दीपक उप कमान्डेन्ट	153 बटालियन केरिपुबल	31/07/14 (अप०)	बगहा
06	5471	बिमलेश चन्द्रा झा उप कमान्डेन्ट	DIG Range मुजाफरपुर	15/07/14 (अप०)	खगाडिया
07	5257	राजीव रंजन उप कमान्डेन्ट	एस डि जी केरिपुबल	05/07/14 (अप०)	केमूर

एम.सी.पॅवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 10 सितम्बर 2014

सं. ओ.दो.3986/2014—कार्मिक(चि०अ०)—राष्ट्रपति जी डॉ० बी. कल्पना को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपये 15,600—39,100/— + ग्रेड वेतन रुपये 5400/— में चिकित्साधिकारी/सहायक कमान्डेंट के पद पर बल की नफरी में दिनांक 04.09.2014 (पूर्वान्ह) से, अगले आदेश तक अस्थाई तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम.सी.पॅवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ.दो.3985/2014—कार्मिक(चि०अ०)—राष्ट्रपति जी डॉ० अशोक कुमार को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपये 15,600—39,100/— + ग्रेड वेतन रुपये 5400/— में चिकित्साधिकारी/सहायक कमान्डेंट के पद पर बल की नफरी में दिनांक 02.09.2014(पूर्वान्ह) से, अगले आदेश तक अस्थाई तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम.सी.पॅवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

समन्वय निदेशालय
(पुलिस बेतार)

नई दिल्ली-3, दिनांक 5 सितम्बर 2014

सं. ए-17011/45(एम-107)/2013-प्रशा.-I—इस निदेशालय के श्री मिलिंदकुमार जयदेव अंधारे, सहायक निदेशक, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31-08-2014 (अपराहन) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

वेणु कुमार के. एम.
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
एवम् कार्यालयाध्यक्ष

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-03, दिनांक 17 फरवरी 2014

सं. ई-38013/1/अ.सू./रा.प.अ./2014/कार्मिक.1/64—राष्ट्रपति, निम्नलिखित निरीक्षक (अनु0) को रुपये 15,600—39,100/— (+) ग्रेड वेतन रुपये 5,400/— के वेतनमान में केओसुब में सहायक कमाण्डेन्ट (जेएओ) के रैंक में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से उन्हें इस पद पर नियमित आधार पर पदोन्नत करते हैं:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	नियमित आधार पर सहायक कमाण्डेन्ट/ जेएओ के रूप में पद ग्रहण की तिथि
1	डी.एस.मान	बल मुख्यालय नई दिल्ली	17.02.2014 (पूर्वाहन)

हस्ता./—अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

दिनांक 3 मार्च 2014

सं. ई-38013/1/अ.सू./रा.प.अ./2014/कार्मिक.1/89—राष्ट्रपति, निम्नलिखित निरीक्षक (आशु0) को रुपये 15,600—39,100/— (+) ग्रेड वेतन रुपये 5,400/— के वेतनमान में केओसुब में सहायक कमाण्डेन्ट (जेएओ) के रैंक में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से उन्हें इस पद पर नियमित आधार पर पदोन्नत करते हैं:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	नियमित आधार पर सहायक कमाण्डेन्ट/ जेएओ के रूप में पद ग्रहण की तिथि
1	एम.पुरुषोत्तम	बल मुख्यालय, नई दिल्ली	29.01.2014 (पूर्वाहन)

हस्ता./—अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 सितम्बर 2014

सं. ई-16013/वी0सी0मा0-भा0पु0से0/2014/कार्मिक-2/995—राष्ट्रपति, श्री विक्रम सिंह मान, भा0पु0से0 (ए0पी0 : 1998) को दिनांक 29/08/2014 (पूर्वाहन) से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में उप महानिरीक्षक पद के वेतनमान बैंड-4 रु 37,400—67,000/— + ग्रेड वेतन रु 8900/— में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते हैं।

डी श्यामला
सहायक महानिरीक्षक (कार्मिक)

रक्षा लेखा विभाग

(कार्यालय रक्षा लेखा महानियंत्रक)

दिल्ली छावनी-110010, दिनांक 14 अगस्त 2014

सं. प्रशा-1/1171/र.ले.अपर म.नि./2014-15—राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारी को उक्त सेवा के रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक के ग्रेड [रुपये 75500-(वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3%)-80000] में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से आगामी आदेश पर्यन्त सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक के ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
1.	श्री एस.एस. संधु	11.08.2014

प्रवीण कुमार राय
रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशा)

सं. प्रशा-1/1172/एस.ए.जी./2013-14—राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारी को उक्त सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (वेतनमान 37,400-67,000 रुपये + ग्रेड वेतन 10,000 रुपये) में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से तथा आगामी आदेश पर्यन्त सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
1.	श्री आर.एन. बिस्वास	09.05.2014

प्रवीण कुमार राय
रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशा)

वस्त्र मंत्रालय
(हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 2014

सं. ए-23023/4/2014-डीसीएचएल/स्था-II—राष्ट्रपति, श्री एम. वी. सपतनेकर को 12.08.2014 (पूर्वाह्न) से भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर में अगले आदेशों तक 15,600-39,100/- रुपये (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतन मान में रीडर (वस्त्र प्रसंस्करण) के पद पर नियुक्त करते हैं ।

राजेश कुमार साहू
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

सं. ए-23023/4/2014-डीसीएचएल/स्था-II—राष्ट्रपति, श्री सतीश कुमार रोहिल्ला को 12.08.2014 (पूर्वाह्न) से भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, वाराणसी में अगले आदेशों तक 15,600-39,100/- रुपये (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतन मान में रीडर (वस्त्र प्रसंस्करण) के पद पर नियुक्त करते हैं ।

राजेश कुमार साहू
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

सं. ए-23023/4/2014-डीसीएचएल/स्था-II—राष्ट्रपति, श्री एस. टी. सुब्रह्मण्यम को 12.08.2014 (पूर्वाह्न) से भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, वाराणसी में अगले आदेशों तक 15,600-39,100/- रुपये (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतन मान में उप निदेशक (बुनाई) के पद पर नियुक्त करते हैं ।

राजेश कुमार साहू
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

सं. ए-23023/4/2014-डीसीएचएल/स्था-II—राष्ट्रपति, श्री ओम प्रकाश कोटनाला को 12.08.2014 (पूर्वाह्न) से भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी में अगले आदेशों तक 15,600-39,100/- रुपये (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतन मान में उप निदेशक (प्रसंस्करण) के पद पर नियुक्त करते हैं ।

राजेश कुमार साहू
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

दिनांक 3 सितंबर 2014

सं. ए-23023/4/2014-डीसीएचएल/स्था-II—राष्ट्रपति, श्री लालता प्रसाद को 01.09.2014 (पूर्वाह्न) से भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर में अगले आदेशों तक 15,600-39,100/- रुपये (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतन मान में उप निदेशक (बुनाई) के पद पर नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार साहू
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

खान मंत्रालय
(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता-700016, दिनांक 12 सितंबर 2014

सं. ए-32013/वरि.नि.स./डीपीसी/2014-15/19ए—महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित निजी सचिव, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को पदोन्नति पर इसी विभाग में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर रु.4,800/- के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड -2 (रु. 9,300-34,800) में नियमानुसार वेतन पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नियमावली के अनुसार उनके सामने उल्लिखित तिथि से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

क्रम सं	अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तिथि
1	श्री शिव लाल	28.05.2014 (अपराह्न)

एस.दास राय
उप निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)
कृते महानिदेशक

परमाणु ऊर्जा विभाग
(क्रय और भंडार निदेशालय)

मुंबई-400094, दिनांक 5 सितंबर 2014

सं. क्रभनि/07019/भर्ती/2833—निदेशक, क्रय और भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, श्रीमती दिप्ती डी. साटम, वरिष्ठ भंडारी, [वेतन बैंड (पीबी-2) रु. 9,300-34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,200/-], केंद्रीय भंडार एकक, क्रय और भंडार निदेशालय, मुंबई को सहायक भंडार अधिकारी के पद पर वेतन बैंड (पीबी-2) रु. 9,300-34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/-, में भंडार एकक, क्रय और भंडार निदेशालय, तारापुर में दिनांक 14 अगस्त, 2014 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

एस. वाय. कांबळे
प्रशासन अधिकारी-III

विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड

नवी मुंबई-400703, दिनांक 5 सितंबर 2014

सं. ब्रिट/9/17(1)/जुलाई/2013/24—राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'डी' के वैज्ञानिक अधिकारी श्री माविलेत चाण्डपिल्लै मॅथ्यूस पणिकर को दिनांक 1 जुलाई 2013 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपये 15600-39100 के वेतन बैंड में रु.7600 ग्रेड वेतन सहित, वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड 'ई' के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए.के. कोहली
मुख्य कार्यकारी

भारी पानी बोर्ड

मुंबई-400094, दिनांक 26 अगस्त 2014

शुद्धि-पत्र

सं. भापाबो/भर्ती/4(15)/2013/4209—भापाबो (कें.का) के दिनांक: 15.01.2014 की अधिसूचना संख्या भापाबो/भ/4(15)/2012/Vol.V/268 में आंशिक संशोधन करते हुए अधिसूचना के कॉलम सं. 6 में उल्लिखित श्री ई. अभिलेख, वैज्ञानिक अधिकारी/सी, भापासं (मणुगूर), (क्रम संख्या. 42) की पदोन्नति की तारीख को दिनांक 01.07.2012 के बदले 06.07.2012 पढ़ा जाए।

के. एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी - III

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 सितंबर 2014

सं. ए-32013/09/2014—स्थापना-2—राष्ट्रपति महोदय, नागर विमानन महानिदेशक कार्यालय के निम्नलिखित उप निदेशक (प्रचालन) अधिकारियों को दिनांक 04-09-2014 (पूर्वाह्न) से निदेशक (प्रचालन) के पद पर (तदर्थ आधार पद) (PB-4 Rs. 37,400—67,000/- + GP 8,700/- रुपये के वेतनमान में एक वर्ष के लिये या जब तक यह पद नियमित रूप से भरा जाए, जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्त करते हैं।

1. श्री वेद प्रकाश
2. श्री वीरेन्द्र प्रकाश सिंह

गोपाल सिंह
उपनिदेशक (प्रशासन)

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में

कोलकाता, दिनांक 9 सितम्बर 2014

सं. क.र./प.बं./एफटीई/560/2014—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित 20 कम्पनियों के नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए हैं तथा उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्र.सं.	सी.आई.एन	कम्पनी का नाम
1	U51909WB2004PTC098265	वर्शनवी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
2	U15311WB2013PTC192424	मुंशी राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड
3	U51909WB2010PTC150528	प्राकृति डीलट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
4	U74999WB2012PTC174885	टाइमलिक सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
5	U45400WB2012PTC188680	एडीएम कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
6	U15122WB2013PTC195992	लीड्स फूड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
7	U52190WB2011PTC159198	कैरिक ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
8	U52190WB2011PTC159199	मैगनस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
9	U51909WB2012PTC179616	स्वरनसाथी विनट्रेड प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	सी.आई.एन	कम्पनी का नाम
10	U45400WB2012PTC183008	रुद्रमुखी निर्माण प्राइवेट लिमिटेड
11	U51909WB1996PTC079138	बमबिनो कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड
12	U51909WB1996PTC079039	नॉरमन मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
13	U51909WB1996PTC078688	अटलांटा ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड
14	U52311WB1999PTC090706	क्रुज लबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
15	U17115WB1960PTC024813	मोयना डेव्लोपमेंट मल्टीपर्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
16	U70102WB2012PTC187011	एगोन रियल इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
17	U74999WB2012PTC179541	एंटीमनी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
18	U74991WB2011PTC168545	रिलेटिव डाइमेंशनस टेक्नोलोजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
19	U45400WB2012PTC181320	बॉसेस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
20	U65921WB1995PTC072960	यूरेनस क्रेडिट एंड फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

दीप नारायण चौधरी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और एन्ड्रशन इनफोकॉम प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 5 सितम्बर 2014

सं. क./र./शि0/560(5)/2014—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनी का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

क्रमांक	सिन नम्बर	कम्पनी का नाम
1	U72100ML2002PTC006729	एन्ड्रशन इनफोकॉम प्राइवेट लिमिटेड

पी.एस.सिएम
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
शिलांग

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में

दिनांक 10 सितम्बर 2014

सं. क./र./शि0/560(5)/2014—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

क्रमांक	सिन नम्बर	कम्पनी का नाम
1	U92140ML2012PTC008522	नोरदोसटेन एम्बोसमेन्ट पार्क प्राइवेट लिमिटेड

2	U455101ML2012PTC008521	नोरदोसटेन होटेलस एन्ड रीसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
3	U24233AS1996PTC004676	हीमालायान औसदी (हर्बस) इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड

पी.एस.सिएम
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
शिलांग

पुणे-411004, दिनांक 9 सितम्बर 2014

सं. कंरपु/37(3)/एसटीए/2014/84—एल. एल. पी. नियम 2009 के नियम क्र. 37(3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित एल. एल. पी के नाम रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त एल. एल. पी विघटित हो गई है :—

क्र.सं.	एल. एल. पी. संख्या	एल. एल. पी. का नाम
1.	AAA-6261	हैडस्टार्ट कारपोरेट ट्रेनिंग एल. एल. पी.
2.	AAA-3798	वन स्टॉप इन्फायनार्ड ऑनलाईन सर्विसेस एल. एल. पी.
3.	AAA-0066	ऑरी इन्फो सॉल्युशन एल. एल. पी.
4.	AAA-6276	अजन्य एच आर कन्सल्टंट्स एल. एल. पी.
5.	AAA-3640	एल. एस. शुअर एण्ड प्युअर लॉन्ड्रीएट एल. एल. पी.
6.	AAA-6713	सक्षम आउटसोर्सिंग एण्ड मॉबटेक सॉल्युशन एल. एल. पी.
7.	AAA-3492	जे एस पी इंजीनियरिंग एण्ड एडवाइजर्स एल. एल. पी.
8.	AAA-5405	सिल्वर स्लीव्हर क्रिएशन एल. एल. पी.
9.	AAA-5330	सिल्वर बेनीसन मैनेजमेंट कन्सल्टेंसी एल. एल. पी.
10.	AAA-0974	कुबोइड टेक्नॉलोजिज इण्डिया एल. एल. पी.
11.	AAA-2475	इन्फिनीटर्फ टेक्नॉलोजिज एल. एल. पी.
12.	AAA-5325	बी एम सी एडवरटाईजिंग एण्ड मीडिया एल. एल. पी.

अमोल शिन्दे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पुणे

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 एवं
मै. शिवरंजनी फाइनेंशियल एडवाइजर्स एल.एल.पी एल.एल.पी प.स AAA-6630 के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 6 अप्रैल 2014

सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 के नियम 37 (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. शिवरंजनी फाइनेंशियल एडवाइजर्स एल.एल.पी का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त एल.एल.पी विघटित हो गई है।

श्रीधर पामर्थी
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कंपनी अधिनियम, 1956 और मै. गोवा टूरिज़म हैल्पलाईन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 25 अगस्त 2014

सं. 6388—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. गोवा टूरिज़म हैल्पलाईन प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

श्रीधर पामर्थी
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कंपनी अधिनियम, 1956 और मै. रैड अर्थ रिज़ार्टस् प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 25 अगस्त 2014

सं. 3075—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. रैड अर्थ रिज़ार्टस् प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

श्रीधर पामर्थी
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कंपनी अधिनियम, 1956 और मै. ऐरोस कनैक्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 25 अगस्त 2014

सं. 7068—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. ऐरोस कनैक्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

श्रीधर पामर्थी
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 3rd September 2014

No. DPPERS.I/2014/0086/3/22/2009—Services of Shri Arun Bothra, IPS (OR : 1996), Deputy Inspector General of Police, CBI, New Delhi have been placed back at the disposal of Government of Odisha with effect from the afternoon of 23.08.2014 on repatriation, consequent upon completion of his approval tenure at centre.

Deepika Suri
Deputy Director (Pers.)

The 5th September 2014

No. DPPERS.I/2014/0087/3/60/2013-PERS.I.—Services of Shri Salil Kapoor, Circle Organiser SSB, posted as Dy.SP in C.B.I. on deputation basis, are placed back at the disposal of Shashatra Seema Bal w.e.f. 12.08.2014 (AN) on premature repatriation.

Deepika Suri
Deputy Director (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY

Hyderabad-500 052, the 8th September 2014

No.15011/14/2014-Estt.—On the recommendation of the Union Public Service Commission conveyed vide their letter F.No.3/24(38)/2013-ADT-3 dated 04.03.2014 and dated 26.06.2014, Dr. Yalavarthi Nirmala, Reader in Education, Indira Gandhi National Open University, New Delhi is appointed as Reader in Teaching Methodology in the SVP National Police Academy, Hyderabad in the pay scale of PB-3, Rs. 15,600 – 39,100/- + Grade Pay Rs.7,600/- on deputation basis for a period of three years with effect from 27th August, 2014(FN) or until further orders, whichever is earlier, on usual terms and conditions of deputation. Officer will be entitled to the pay and allowances of the said post, as per GOI instructions issued from time to time.

Aruna Bahuguna
Director

The 10th September 2014

No.15011/12/2014-Estt.—On the recommendation of the Union Public Service Commission conveyed vide their letter F.No.3/24(39)/2013-ADT-3 dated 05.02.2014 and Govt. Higher Secondary School, Indore letter No.Estt/2014 dated Nil, Shri Jitendra Ved, Lecturer, Govt. Higher Secondary School, Indore, Madhya Pradesh is appointed as Hindi Instructor, Group 'B', Gazetted, Non- Ministerial in the SVP National Police Academy, Hyderabad in the pay scale of PB-2, Rs. 9,300–34,800/- + Grade Pay Rs. 4,600/- on deputation basis for a period of two years with effect from 30th June, 2014(FN) or until further orders, whichever is earlier, on usual terms and conditions of deputation. Officer will be entitled to the pay and allowances of the said post, as per GOI instructions issued from time to time.

Aruna Bahuguna
Director

LNJN NATIONAL INSTITUTE OF CRIMINOLOGY & FORENSIC SCIENCE

Delhi-110 085, the 5th August 2014

No. 01/15/14-LNJJN NICFS—The President is pleased to appoint Smt. Rina Mitra, IPS (MP-83) as Director, LNJJN National Institute of Criminology & Forensic Science (Ministry of Home Affairs) in HAG pay scale of Rs 67,000--79,000/- on deputation and lateral shift basis for the period upto 21 May 2015 with effect from the forenoon of 22 Jul 2014.

Deepa Pande
Adm Officer

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi, the 5th September 2014

No. D.I.09/2009-2013-Pers-DA-8—Consequent on their selection for appointment to the post of Addl. SP (Ops) for posting in LWE/naxal affected districts of Bihar for a period of three years on deputation basis vide MHA letter No. I-21022/1/2013-Pers-II dated 04/04/2014 and Addl. Secretary, Home (Police) Department Govt of Bihar Notification No. 2/D-01-203/09(Part-II) G.R 4974/Patna-15 dated 18/06/2014, their services are placed at the disposal of DG Bihar Police from the date shown against each :—

Sl. No.	IRLA No.	Rank & Name (S/Shri)	Unit/Sector	Date of relief from CRPF.	Place of posting on deputation
01.	5427	Arun Kumar Singh, DC	218 Bn, CRPF	13/07/14(AN)	Banka
02.	5345	Anil Kumar Singh, DC	SDG, N/Delhi	27/08/14(AN)	Jahanabad
03	5652	Rajnish Kumar, DC	GC MZR	23/07/14(AN)	Lakhisarai
04	6694	Sanjeev Kumar Singh, DC	192 Bn	20/07/14 (AN)	Sitamadi additional charge Sibhar
05	5517	Shailesh Deepak, DC	153 Bn.	31/07/14 (AN)	Bagha
06	5471	Bimlesh Chandra Jha, DC	DIG Range MZR	15/07/14 (AN)	Khagadia
07	5257	Rajiv Ranjan, DC	SDG, New Delhi	05/07/14 (AN)	Kymur

M. C. Panwar
DIGP (Pers)

—————
The 10th September 2014

No. O.II-3986/2014-Pers (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. B. Kalpana, selected candidate of MOSB – 2013, as Medical Officer/Assistant Commandant in Central Reserve Police Force in the pay band of Rs. 15,600--39,100/- plus Grade pay Rs. 5,400/- in temporary capacity wef 04-09-2014 (FN), until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force.

M. C. Panwar
DIG (Pers)

No. O.II-3985/2014-Pers (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Ashok Kumar selected candidate of MOSB – 2013, as Medical Officer/Assistant Commandant in Central Reserve Police Force in the pay band of Rs. 15,600--39,100/- plus Grade pay Rs. 5,400/- in temporary capacity wef 02-09-2014 (FN), until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force.

M. C. Panwar
DIG (Pers)

DIRECTORATE OF COORDINATION

(POLICE WIRELESS)

New Delhi-3, the 5th September 2014

No. A-17011/45 (M-107)/2013-Admn.I—Shri Milindkumar Jaideo Andhare, Assistant Director of this Directorate has retired from Government service on attaining the age of superannuation in the afternoon of 31-08-2014.

Venukumar K. M.
Joint Director (Admn)
&
Head of the Office

DIRECTOR GENERAL

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-03, the 17th February 2014

No. E-38013/1/NOTI./GOs/2014/PERS-1/64—The President is pleased to appoint the following Inspector (Min) on regular promotion to the rank of Assistant Commandant (JAO), in the pay scale of Rs. 15,600--39,100/- (+) Grade Pay of Rs. 5,400/- in CISF with effect from the date noted therein :—

Name of Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as AC(JAO) on regular basis
Shri D. S. MANN	FHQRS, NEW DELHI	17.02.2014/FN

Sd./- ILLEGIBLE
Director General/CISF

The 3rd March 2014

No. E-16015/(2)/32/2009/Pers.I/89—The President is pleased to appoint the following Inspector (Steno) on regular promotion to the rank of Assistant Commandant/JAO, in the pay scale of Rs. 15,600--39,100/- plus Grade Pay of Rs. 5,400/- on regular basis in CISF with effect from the date shown therein :—

Name of Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Assistant Commandant/JAO on regular basis
Shri M. Purushothaman	Fhqrs, New Delhi	29.01.2014/FN

Sd./- ILLEGIBLE
Director General/CISF

New Delhi, the 8th September 2014

No. E-16013/VSM-IPS/2014/Pers-II/995—The President is pleased to appoint Shri Vikram Singh Mann, IPS (AP:1998) as Deputy Inspector General in the pay band PB-4 Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 8,900/- in Central Industrial Security Force (MHA) on deputation with effect from the forenoon of 29.08.2014.

D. SHYAMALA
ASSTT. INSPECTOR GENERAL (PERS)

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS

Delhi Cantt 110010, the 14th August 2014

No. AN-I/1171/Addl.CGDA/2014-15—The President is pleased to appoint the undermentioned officer of the Indian Defence Accounts Service to the grade of Additional Controller General of Defence Accounts (Rs. 75,500 – (AI@3%) – 80,000/-) of that Service, with effect from the date shown against his name, until further orders :—

Name of the officer	Date of appointment as Additional Controller General of Defence Accounts
Shri S. S. Sandhu	11.08.2014

P. K. Rai
Dy. CGDA (Admin)

No. AN-I/1172/SAG/2013-14—The President is pleased to appoint the undermentioned officer of the Indian Defence Accounts Service, to the Senior Administrative Grade (Scale of Pay of Rs. 37,400--67,000/- + Grade Pay Rs. 10,000/-) of that Service, with effect from the date indicated against his name and until further orders :—

Name of the officer	Date from which appointed to the Senior Administrative Grade
Shri R. N. Biswas	09.05.2014

P. K. Rai
Dy. CGDA (AN)

MINISTRY OF TEXTILES
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR HANDLOOMS

New Delhi, the 19th August 2014

No. A-23023/4/2014-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to appoint Shri M. V. Sapatnekar as Reader (Textile Processing) in the pay-scale of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 6,600/- in the Indian Institute of Handloom Technology (IIHT), Jodhpur w.e.f. 12.08.2014 (forenoon) until further orders.

Rajesh Kumar Sahu
Addl. Development Commissioner (HL)

No. A-23023/4/2014-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to appoint Shri Satish Kumar Rohilla as Reader (Textile Processing) in the pay-scale of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 6,600/- in the Indian Institute of Handloom Technology (IIHT), Varanasi w.e.f. 12.08.2014 (forenoon) until further orders.

Rajesh Kumar Sahu
Addl. Development Commissioner (HL)

No. A-23023/4/2014-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to appoint Shri S.T.Subramanian as Deputy Director (Weaving) in the pay-scale of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 6,600/- in the Indian Institute of Handloom Technology (IIHT), Varanasi w.e.f. 12.08.2014 (forenoon) until further orders.

Rajesh Kumar Sahu
Addl. Development Commissioner (HL)

No. A-23023/4/2014-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to appoint Shri Om Prakash Kotnala as Deputy Director (Processing) in the pay-scale of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 6,600/- in the Indian Institute of Handloom Technology (IIHT), Guwahati w.e.f. 12.08.2014 (forenoon) until further orders.

Rajesh Kumar Sahu
Addl. Development Commissioner (HL)

The 3rd September 2014

No. A-23023/4/2014-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to appoint Shri Lalta Prasad as Deputy Director (Weaving) in the pay-scale of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 6,600/- in the Indian Institute of Handloom Technology (IIHT), Jodhpur w.e.f. 01.09.2014 (forenoon) until further orders.

Rajesh Kumar Sahu
Addl. Development Commissioner (HL)

KHAN MANTRALAYA

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700 016, the 12th September 2014

No. A-32013/Sr. P.S./DPC/2014-15/19A—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Director General, Geological Survey of India is pleased to appoint the following Private Secretary, Geological Survey of India to the post of Sr. Private Secretary on promotion in the same Department and on pay according to rules in the Pay Band-2 (Rs. 9,300 – 34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,800/- on regular basis, according to Rules in Geological Survey of India w.e.f. the date shown against the name until further orders :—

Name of the officers	Date of joining
Shri Shiv Lal	28.05.2014 (A.N.)

S. Das Roy
Deputy Director (P&A)
for Director General

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

(DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES)

Mumbai 400 094, the 5th September 2014

No. DPS/07019/Rectt/2833—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy, appoints Smt. Dipti D. Satam, Sr. Storekeeper [Pay Band (PB-2) ₹ 9,300—34,800/- + Grade Pay ₹ 4,200/-], Central Stores Unit, Directorate of Purchase & Stores, Mumbai, as Assistant Stores Officer in the Pay Band (PB-2) ₹ 9,300—34,800/- + Grade Pay ₹ 4,800/-, in the Stores Unit, Directorate of Purchase & Stores, Tarapur, w.e.f the forenoon of 14th August, 2014, until further orders.

S. Y. Kamble
Administrative Officer-III

BOARD OF RADIATION & ISOTOPE TECHNOLOGY

Navi Mumbai-400703, the 5th September 2014

No: BRIT/9/17(1)/JULY/2013/ 24—The President is pleased to appoint Shri Mavilethu Chandapillai Mathews Panicker, Scientific Officer/ Engineer in the Grade 'D' of Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officer / Engineer Grade 'E' in the pay band of Rs. 15,600--39,100/- and Grade Pay Rs. 7,600/- in the same Unit with effect from the forenoon of July 01, 2013 until further orders.

Dr. A. K. Kohli
Chief Executive

HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400 094, the 26th August 2014

C O R R I G E N D U M

No. HWB/R/4(15)/2012/4209—In partial modification of Notification No. HWB/R/4(15)/2012/Vol.V/268 dated 15.01.2014, the date of promotion in respect of Shri E. Abhilash, Scientific Officer /C of Heavy Water Plant (Manuguru)

(Serial No. 42) indicated in column No. 6 of Notification dated 15.01.2014 may be read as 06.07.2012 instead of 01.07.2012.

K. S. Pillai
Administrative Officer –III

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110 003, the 5th September 2014

No. A-32013/09/2014-E.II.—The President is pleased to appoint the following Deputy Director of Operations in DGCA as Director of Operations on ad-hoc basis in PB-4, Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay Rs. 8,700/- w.e.f. 04.09.2014 for a period of one year or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier :

(1) Shri Ved Prakash

(2) Shri Virendra Prakash Singh

GOPAL SINGH
Deputy Director of Admn.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kolkata, the 9th September 2014

No. ROC/WB/FTE/560/2014—Notices is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have on this day been struck off from the Register and the Companies are dissolved.

SL No.	CIN	Name of the Company
1	U51909WB2004PTC098265	VASHNAVI TRADE PRIVATE LIMITED
2	U15311WB2013PTC192424	MUNSHI RICE MILL PRIVATE LIMITED
3	U51909WB2010PTC150528	PRAKRITI DEALTRADE PRIVATE LIMITED
4	U74999WB2012PTC174885	TIMELINK SALES PRIVATE LIMITED
5	U45400WB2012PTC188680	ADM CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
6	U15122WB2013PTC195992	LEEDS FOOD INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
7	U52190WB2011PTC159198	CARRICK TRADING PRIVATE LIMITED
8	U52190WB2011PTC159199	MAGNUS MARKETING PRIVATE LIMITED
9	U51909WB2012PTC179616	SWARANSATHI VINTRADE PRIVATE LIMITED
10	U45400WB2012PTC183008	RUDRAMUKHI NIRMAAN PRIVATE LIMITED
11	U51909WB1996PTC079138	BAMBINO COMMERCIAL PVT LTD
12	U51909WB1996PTC079039	NORMAN MERCHANTS PVT LTD
13	U51909WB1996PTC078688	ATLANTA TRADECOM PVT LTD
14	U52311WB1999PTC090706	CRUZ LABORATORIES PRIVATE LIMITED
15	U17115WB1960PTC024813	MOYNA DEVELOPMENT MULTIPURPOSE CO PVT LTD
16	U70102WB2012PTC187011	AGON REAL ESTATES PRIVATE LIMITED
17	U74999WB2012PTC179541	ANTIMONY MARKETING PRIVATE LIMITED

SL No.	CIN	Name of the Company
18	U74991WB2011PTC168545	RELATIVE DIMENSIONS TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED
19	U45400WB2012PTC181320	BOSES PROPERTIES PRIVATE LIMITED
20	U65921WB1995PTC072960	URANUS CREDIT AND FINANCE PVT LTD

D. N. CHOWDHURY
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 1956 AND OF
ANDERSON INFOCOM PRIVATE LIMITED
Shillong-793001, the 5th September 2014

No. ROC/SH/560(5)/2014—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of below mentioned Companies has this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved.

SL NO.	CIN NUMBER	NAME OF COMPANY
1.	U72100ML2002PTC006729	ANDERSON INFOCOM PRIVATE LIMITED

P. S. SYIEM
Registrar of Companies
Shillong

IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 1956 AND OF FOLLOWING COMPANIES
Shillong-793001, the 10th September 2014

No. ROC/SH/560(5)/2014—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of below mentioned Companies has this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved.

SL NO.	CIN NUMBER	NAME OF COMPANY
1.	U92140ML2012PTC008522	NORDOSTEN AMBUSEMENT PARK PRIVATE LIMITED
2.	U44101ML2012PTC008521	NORDOSTEN HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
3.	U24233AS1996PTC004676	HIMALAYAN AUSHADHI(HERBS) INDIA PRIVATE LIMITED

P. S. SYIEM
Registrar of Companies
Shillong

In the matter of Rule 37(3) of the LLP Rules, 2009
and of the following Companies
Pune-4, the 9th September 2014

No. ROC/Rule 37(3)/STA/2014/84—Notice is hereby given pursuant to Rule 37(3) of the LLP Rules 2009, the following Companies has been struck off from the Register and the said Companies are dissolved.

SL NO.	LLPIN	NAME OF LLP
1.	AAA-6261	HEADSTART CORPORATE TRAINING LLP
2.	AAA-3798	ONE STOP INFINITE ONLINE SERVICES LLP

SL NO.	LLPIN	NAME OF LLP
3.	AAA-0066	AURI INFO SOLUTIONS LLP
4.	AAA-6276	AJANYA HR CONSULTANTS LLP
5.	AAA-3640	N. S. SURE AND PURE LAUNDERETTE LLP
6.	AAA-6713	SAKSHAM OUTSOURCING AND MOBTECH SOLUTIONS LLP
7.	AAA-3492	JSP ENGINEERING AND ADVISORS LLP
8.	AAA-5405	SILVER SLIVER CREATIONS LLP
9.	AAA-5330	SILVER BENSION MANAGEMENT CONSULTANCY LLP
10.	AAA-0974	CUBOID TECHNOLOGIES INDIA LLP
11.	AAA-2475	INFINITRF TECHNOLOGIES LLP
12.	AAA-5325	BMC ADVERTISING & MEDIA LLP

DR. AMOL SHINDE
Asstt. Registrar of Companies
Pune

In the matter of the LLP Act, 2008 and of
M/s SHIVRANJANI FINANCIAL ADVISORS LLP LLPIN AAA-6630

Panaji-403001, the 6th April 2014

Notice is hereby given pursuant to Rule 37(3) of the LLP Rules, 2009 that the name of SHIVRANJANI FINANCIAL ADVISORS LLP has this day been struck off the Register and the said LLP is dissolved.

SRIDHAR PAMARTHI
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s GOA TOURISM HELPLINE PRIVATE LIMITED

Panaji-403001, the 25th August 2014

No. 6388—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of GOA TOURISM HELPLINE PRIVATE LIMITED has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SRIDHAR PAMARTHI
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s RED EARTH RESORTS PRIVATE LIMITED

Panaji-403001, the 25th August 2014

No. 3075—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of RED EARTH RESORTS PRIVATE LIMITED has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SRIDHAR PAMARTHI
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s ARROWS CONNECT (INDIA) PRIVATE LIMITED

Panaji-403001, the 25th August 2014

No. 7068—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of ARROWS CONNECT (INDIA) PRIVATE LIMITED has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SRIDHAR PAMARTHI
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in